

## १. आत्मविश्वास

श्री नामदेव लाडिला (१९५१ ई.) पीरु गोठ सिंध में जावलु, श्री नामदेव लाडिला सिंधी भाषा जो हिक नालेरो आलिमु अदीबु आहे. ‘अहिसाननि जी उथल’ ऐं ‘जिंदगीअ जूं लकीरु’ ब्रु कविता संग्रह ऐं ‘अदबी गुन्चो’, ‘सागर जूं सिपूं’ ऐं ‘झरिणा’ मज़मूननि जा मजिमूआ अथसि. हिन मजिमून में जीवन में सफलता हासुलु करण लाइ आत्मविश्वास जी अहिमियति समुझाई वेई आहे.

पंहिंजो पाण में विश्वासु, उन खे चयो वेंदो आहे आत्मविश्वास. आत्मविश्वास हिक अहिडी गडबी शक्ती आहे, जंहिं जी मदद सां इंसानु पंहिंजे हर कार्य में सफलता हासुलु करे सघे थो. न रुगो ऐतिरो, पर उन जी सहायता सां इंसानु बिया बि अनोखा कम करे सघे थो. जड्हिं को माणहू पाण में इहो विश्वासु जागृत कंदो त हूं को बि कमु करण जे लाईकु आहे ऐं हूं खंयल कम खे हर हालति में पूरो ज़रुर कंदो, त हिन खे उन कम में कामयाबी ज़रुर मिलंदी. आत्मविश्वास रखंदडु पुरुष मुहकमु इरादे वारो थींदो आहे. हूं कहिडीअ बि इस्थतीअ में छो न हुजे, कड्हिं बि पंहिंजो आत्मविश्वास न विजाईदो आहे. जंहिं इंसान खे पाण ते विश्वास न हूंदो आहे, उहो कड्हिं बि कामियाबु जिंदगी न गुजारींदो आहे. इंसान आत्मविश्वास जे ब्रुल सां नयूं नयूं खोजनाऊं करे, इंसान ज़ाति खे अचिरज में विझी छड्हियो आहे. जागराफ़ीकल तोडे विज्ञानिक खोजनाऊं आत्मविश्वास जो ई नतीजो आहिनि. करसटोफ़र कोलम्बस ततीअ थधीअ जी परिवाह न करे, समुंद जा सैर तूफानी हवाउनि जो मुक्काबिलो करे हिक नई दुनिया गोल्हे लधी, जंहिं खे अजु असीं आमरीका कोठियूं था. सर आईज़िक न्यूटन कशशि सिकल जो क्राईदो गोल्हे लधो, हिन जी उन गोल्हा पुठियां, संदसि महिनत लगन जो हथु हो. उन खां सवाइ तार, टेलीफोन, टेलिविज़न, रेडियो, रेल गाडी, हवाई ज़हाजु, सिबण जी मशीन, वाशिंग मशीन, कैमेरा, टाईपराईटर, टेलीप्रिंटर ऐं बियूं खोजनाऊं इंसान ज़ाति लाइ वरिदान, सुख सहिंज ऐं खुशीअ जो बाइसु बणियूं आहिनि. उन्हनि जी खोजना कंदडनि में पंहिंजो पाण में विश्वासु हो. कमु कंदे हिननि कड्हिं बि थकु, घब्बिराहट, सुस्ती ऐं नाउमेदी महिसूसु न कई.

उन मां साफु ज़ाहिरु आहे त इंसानु हिक दफो जड्हिं पाण में विश्वास रखी, कंहिं बि कम जी शुरुआति कंदो त उन में निश्चित सफलु थींदो. आत्मविश्वास आत्मिक शक्ती वधाए थो ऐं कहिडी बि मुसीबत सहण जो ब्रुलु पैदा करे थो.

तेनज़िंग हिलारी, माऊंट ऐवरेस्ट जी चोटीअ ते चड्ही आलमी रिकार्ड टोड्हियो. चालर्स लम्ब ऐटलांटिक सागर पारि कयो, उहो चमत्कारु न हुयो त बियो छा हो! जे हिननि वटि आत्मविश्वास जी कमी हुजे हा त हूं कड्हिं बि अहिडो जोखम भरियो कमु न करे सघनि हा. पाण में पको विश्वासु कामियाबीअ जी कुंजी आहे. जड्हिं के बि मुकेबाज़ पाण में लडंदा आहिनि त जीत उन जी ई थींदी आहे, जंहिं जो आत्मविश्वास वधीक मजिबूतु हूंदो आहे. वडी छलांग में बि उहो छलांग मारीदडु सफलु थींदो आहे, जंहिं खे पाण में प्रब्रुल विश्वासु हूंदो आहे.

पी.टी.उषा जो ई मिसालु वठो, जे संदसि आत्मविश्वास कमिज़ोरु हुजे हा त कड्हिं बि तेजु डोड में रिकार्ड काइमु करे न सघे हा. विश्वासु कुदिरित तरफ़ां मिलियलु हिक वरिदानु आहे, जेकड्हिं उहो विश्वासु असां पाण में रखंदासीं त जहान जी हर नामुमकिनु ग्राल्हि मुमकिनु बणाए सघंदासीं.

मुहकमुः पको  
बाइसुः सबबु

जोखमुः खतिरो  
स्थिति: हालति

गङ्गबी: लिकलु  
अचिरज में विझनुः अजब में विझणु

### अभ्यासु

**सुवाल १:** हेठियनि सुवालनि जा जवाब हिक खिनि जुमिलनि में लिखो :-

१. आत्मविश्वास जो मतिलबु छा आहे ?
२. आत्मविश्वास खां सवाइ ज़िंदगी कीअं गुज़िरंदी ?
३. सर आईजिक न्यूटन कहिडो क़ाइदो ग्रोलहे लधो ?
४. आमरीका कंहिं ग्रोलहे लधी ?
५. लेखक मूजिबु कामियाबी जी कुंजी कहिडी आहे ?

**सुवाल २:** हेठियनि सुवालनि जा जवाब थोरे में लिखो :-

१. खोजना कंदडनि कमु कंदे छा महिसूसु न कयो ?
२. आत्मविश्वास जागृत करण सां कहिडो फ़ाइदो पैदा थिए थो ?
३. आत्मविश्वास जा ब्र अनोखा मिसाल लिखो.

**सुवाल ३:** हेठियनि लफ़ज़नि जा ज़िद लिखो :-

१. सफलता, पुठियां, सुस्ती, नामुमकिनु

**सुवाल ४:** सागृ माना वारनि लफ़ज़नि जा जोड़ा मिलायो :-

(अलफ़)	(ब)
ज़ाहिरु	अवसि
सफलु	चिटो
ब्रलु	कामियाबु
ज़रुरु	ताक़त

**सुवाल ५:** वियाकरण मूजिब ग्रालहाइण जा लफ़ज़ सुजाणो :-

पंहिंजो, समुंडु, सघंदासीं, त, शक्ती, तेजु

## पूरक अभ्यास

(१) टुकर ते अमली कम

“इन मां साफु जाहिरु ----- मुमकिनु बणाए सधंदासीं.”

(i) डिनल सुवाल मूजिबु टुकर मां सही लफऱ्य गोल्हयो

(अल्फु) ज़िद गोल्हयो : नाकामियाबी ..... ताकतवरु .....

(ब) सुफतूं गोल्हयो : सफाई ..... मज़िबूती .....

(ब्र) हम आवाजी लफऱ्य गोल्हयो : हार ..... मेज़ .....

(ii) आत्मविश्वास में आत्म + विश्वास ब्र लफऱ्य आहिनि अहिडे नमूने चोकुंडे मां “आत्म सां ठहिकंदड” लफऱ्य गोल्हे लिखो :-

(अल्फ) आत्म .....

जोग, घर, ज्ञानु,  
ब्रोधु, आसमानु, कथा,  
पेन्सिल, कहाणी, शक्ती


(ब) आत्म .....

(ब्र) आत्म .....

(प) आत्म .....

(iii) ‘पाण में दृढ विश्वास कामियाबी जी कुंजी आहे’ इन बाबति पंहिंजा राया पेश करियो.

(vi) चौकुण्डा भरियो :



(२) तव्हीं पंहिंजे जीवन जी अहिडी का घटिना / किसो लिखो, जंहिं में तव्हीं पंहिंजे आत्मविश्वास जे ब्रुल सां पारि पिया हुजो.

(३) हेठियां लफऱ्य कमि आणे, आखाणी ठाहे लिखो :

बचदशाहु, कोरीअडो, पलंगु, जंगि खटणु





## १. करनम मालेश्वरी :

‘वज्रनु खण्ण (Weight Lifting) में भारत जी पहरीं महिला, जिन्हि ओलम्पिक रांदियुनि में सन् 1995 ई. में मेडिल खटियो. खेस 1995 ई. में भारत सरिकारि ‘राजीव गांधी खेल रतन’ इनाम सां सन्मानित कयो. सन् 1999 ई. में खेस ‘पदम श्री’ इनाम सां नवाज़ियो वियो.



## २. अंजू बाबी जार्ज :

सन् 2003 ई. में पैरिस में वल्ड' चैम्पियनशिप इन एडथेलेटिकिस में लांग जप्प में ब्रांज मैडल खटी भारत जो नालो ऊचो कयो. सागिए नमूने सन् 2005 ई. में IAAF में गोल्ड मेडल खटी शान्दार जीत हासल कई.



## ३. पी. वी. सिंधू :

पहरीं भारतीय रांदीगर जिन्हि बैडमिंटन रांदि में 2016 ई. ओलम्पिकिस में सिल्वर मैडल हासुलु करे जीत जो नगारो वज्रायो. ताजो सन् 2017 ई. में कोरिया रांदियुनि में पिण मैडल खटी नालो कमायो. सन् 2015 ई. में खेस ‘पदम श्री’ इनाम सां नवाज़ियो वियो.



## ४. साक्षी मलिक :

2016 ई. ओलम्पिक्स रांदियुनि में कुश्तीअ में ब्रान्ज मैडल खटियो, इन रांदि में हूअ पहरीं रांदीगर बणी जिन्हि 58 kg किसम में भाग वठी, मेडल हासुलु कयो.

